

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 368 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

---

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् बागबाहरा, जिला महासमुंद के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. बागबाहरा नगर पालिका परिषद् को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	इंदिरा गांधी वार्ड
4	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	गणेशनगर वार्ड
6	श्री कृष्ण अग्रवाल वार्ड
7	डेरहाप्रसाद वार्ड
8	गुरुनानक वार्ड
9	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
10	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
11	बाबू सागरचंद वार्ड
12	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
13	जाकिर हुसैन वार्ड
14	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
15	राजीव गांधी वार्ड

## बागबाहरा नगर पालिका परिषद् के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक 01, महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर — भानुपुर तालाब से शीतला माता मन्दिर होते हुए हेमलाल, ललित, पुन्नीबाई, संतोष रंगारी घर से नगरपालिका सरहद तक।
- पूर्व — नगरपालिका सरहद से केशव चन्द्राकर घर, टाउन हॉल होते हुए पूर्ण प्रसाद ध्रुवंशी घर से दिलीप राजपूत, गंगाबाई ठाकुर घर होते हुए रंगमंच तक।
- दक्षिण — रंगमंच से होते हुए सिचाई विभाग कार्यालय से किरण ठाकुर घर से विंध्या चन्द्राकर घर तक।
- पश्चिम — विंध्या चन्द्राकर घर होते हुए सौरा डेरा से नगरपालिका सरहद होते हुए भानपुर तालाब तक।

### वार्ड क्रमांक 02, जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर — बाबूलाल नरेडिया घर से पुनित, अनिल, अरूण, किशोर डहरवाल घर होते हुए छन्नूलाल घर तक।
- पूर्व — छन्नूलाल घर से नरेन्द्र सिंह ठाकुर घर होते हुए जमुना बाई, कौशलनारायण (शांतिनगर) के घर से मानसिंग घर तक।
- दक्षिण — मनसिंग घर से कौशल चन्द्राकर (दुर्गानगर) के घर होते हुए चौहान घर से सोनसिंग गुरुजी घर तक।
- पश्चिम — सेनसिंग गुरुजी घर से नोदननाला से नगरपालिका सरहद होते हुए बाबूलाल नरेडिया घर तक।

### वार्ड क्रमांक 03, इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर — दानीराम साहू के घर से उमा साहू, मुरलीधर सिन्हा के घर होते हुए नन्दकुमार सिदार घर तक।
- पूर्व — नन्दकुमार सिदार घर से शोभाराम पटेल के घर होते हुए अवधराम साहू, जितेन्दु श्रीवास्तव, कुलेश देवांगन के घर से देवीचंद साहू घर तक।
- दक्षिण — देवीचंद साहू के घर से रेलवे लाईन मुख्यमार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन से जमुना पटेल के दुकान तक।
- पश्चिम — जमुना पटेल के दुकान से सिटी सिनेमा होते हुए रामजी तिवारी का गोदाम से सरस्वती शिशू मन्दिर से दानीराम साहू के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 04, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड**

- उत्तर — मूलचंद सेन के घर से नगरपालिका तालाब एवं पानी टंकी होते हुए तिरथराम धनकर घर से नरेन्द्र राठौर घर तक।
- पूर्व — नरेन्द्र राठौर घर से जवाहरलाल चन्द्राकर घर होते हुए रामकुमार भट्ट, विष्णु प्रसाद चन्द्राकर घर से लखनलाल देवांगन घर तक।
- दक्षिण — लखनलाल देवांगन घर से अर्जुन सिका घर होते हुए जागेश्वर बघेल के घर से सत्या बघेल घर तक।
- पश्चिम — सत्या बघेल घर से चेतनानंद साहू घर होते हुए रामू गोंड़, चैतराम यादव के घर से पानबाई महानंद घर होते हुए मूलचंद सेन के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 05, गणेशनगर वार्ड**

- उत्तर — गिरिश पटेल घर से कंधी घर होते हुए रेवती बाई यादव घर तक।
- पूर्व — रेवती बाई यादव घर से दिलीप राईस मिल होते हुए अग्रसेन चौक से अशोक होटल तक होते हुए नवरंग कलाथ्र सेंटर तक।
- दक्षिण — अशोक होटल, नवरंग कलाथ्र सेंटर से चुड़ामणी सोनी घर होते हुए रेलवे स्टेशन तक।
- पश्चिम — रेलवे स्टेशन से बच्छराज घर होते हुए रामआश्रय यादव घर से मोहित साहू घर होते हुए गिरिश पटेल घर तक।

**वार्ड क्रमांक 06, श्री कृष्ण अग्रवाल वार्ड**

- उत्तर — सुरेश गणत्रा घर से शेखर चन्द्राकर घर होते हुए कमला सेन घर तक।
- पूर्व — कमला सेन घर से मयाराम पांडे घर होते हुए ललित साहू घर से दुर्गा मण्डप तक।
- दक्षिण — दुर्गा मण्डप से मजीद खान घर होते हुए फिरतुराम चन्द्राकर घर से मदरसा होते हुए कोमल साहू घर तक।
- पश्चिम — कोमल साहू घर से खूबचंद साहू घर होते हुए ज्योति घर से हेमंत यादव घर होते हुए शांतिनगर रोड़ से सुरेश गणत्रा घर तक।

**वार्ड क्रमांक 07, डेरहाप्रसाद वार्ड**

- उत्तर — बुधू साहू घर से होते हुए डोंगर सिंग साव एवं रामलाल ध्रुव घर तक।
- पूर्व — रामलाल ध्रुव घर से महाराणा प्रताप भवन होते हुए पानी टंकी से नया बस स्टैण्ड होते हुए रामेश्वर साहू घर तक।
- दक्षिण — रामेश्वर साहू घर से रेलवे लाईन होते हुए लक्ष्मी मेडिकल तक।
- पश्चिम — लक्ष्मी मेडिकल से दानवीर शर्मा घर होते हुए अग्रसेन भवन से बुधू साहू घर तक।

**वार्ड क्रमांक 08, गुरुनानक वार्ड**

- उत्तर — रामबगस शर्मा घर होते हुए सुकमत घर से गुरुदयाल सिंग घर तक।
- पूर्व — गुरुदयाल सिंग के घर होते हुए पोखराज साहू घर से न.पा.पम्प हाउस तक।
- दक्षिण — न.पा. पम्प हाउस से धरमकांटा से रेलवे लाईन होते हुए राधेश्याम अग्रवाल (गोल्डी) घर तक।
- पश्चिम — राधेश्याम अग्रवाल (गोल्डी) घर से खंभा तालाब होते हुए शीतला मंदिर से रामबगस शर्मा घर तक।

**वार्ड क्रमांक 09, डॉ.अम्बेडकर वार्ड**

- उत्तर — लोरीसिंग घर से पानी टंकी होते हुए बंसत ठाकुर घर तक।
- पूर्व — बंसत ठाकुर घर से देशी शराब दुकान राजीवकानन सरहद होते हुए नगरपालिका सरहद तक।
- दक्षिण — नगरपालिका सरहद से देवदास घर पिथौरा चौक होते हुए पेट्रोल पम्प तक।
- पश्चिम — पेट्रोल पम्प से पुराना पानी टंकी होते हुए लोरीसिंग घर तक।

**वार्ड क्रमांक 10, सुभाषचंद्र बोस वार्ड**

- उत्तर — न.पा.सरहद से रेलवे लाईन होते हुए नगरपालिका सरहद तक।
- पूर्व — नगरपालिका सरहद से रेलवे लाईन, मुक्तिधाम, डबरी होते हुए नगरपालिका सरहद तक।
- दक्षिण — नगरपालिका सरहद नवागांव, शीतला मन्दिर होते हुए शिव के खेत तक।
- पश्चिम — शिव के खेत से डोंगरीपारा होते हुए घुंछापाली रोड़ न.पा.सरहद तक।

**वार्ड क्रमांक 11, बाबू सागरचंद वार्ड**

- उत्तर — देवारडेरा से रेलवे लाईन होते हुए पी.आर. परमार घर से अशोक घर तक।
- पूर्व — अशोक घर से सफरअली घर होते हुए हीरालाल चक्रधारी के खेत, से मुक्तिधाम तक।
- दक्षिण — मुक्तिधाम से दयाराम साहू के दुकान होते हुए दयाराम साहू के खेत तक।
- पश्चिम — दयाराम साहू के खेत से स्वरूपी बाई जैन के घर होते हुए चक्कू सड़क से देवारडेरा तक।

**वार्ड क्रमांक 12, लालबहादुर शास्त्री वार्ड**

- उत्तर — कृषि उपज मण्डी से द्वारिका ठाकुर घर से नेकाईन तालाब होते हुए नगरपालिका सरहद तक।
- पूर्व — नगरपालिका सरहद से राजू चन्द्राकर के दुकान तक।
- दक्षिण — राजू चन्द्राकर के दुकान से नगरपालिका परिषद सरहद होते हुए तेन्दूलोथा बस्ती से डोंगरीपारा होते हुए शिवचंद का खेत से नगरपालिका परिषद् सरहद (मण्डीपारा) तक।
- पश्चिम — नगरपालिका परिषद् सरहद (मण्डीपारा) से मण्डी तालाब होते हुए कृषि उपज मण्डी तक।

**वार्ड क्रमांक 13, जाकिर हुसैन वार्ड**

- उत्तर — रेलवे लाईन से रेलवे पंप हाउस तक।
- पूर्व — रेलवे पंप हाउस से कन्हैया पान ठेला, जयराम वाधवानी घर से प्रशांत अग्रवाल कॉम्पलेक्स तक।
- दक्षिण — प्रशांत अग्रवाल कॉम्पलेक्स से टी.आर.नायडू के घर होते हुए दिलीप पंडा घर तक।
- पश्चिम — दिलीप पंडा घर से शिवचंद गोलछा घर से रेलवे लाईन तक।

**वार्ड क्रमांक 14, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

- उत्तर — रेलवे पटरी से रेलवे प्लेटफॉर्म तक।
- पूर्व — रेलवे प्लेटफॉर्म से पम्प हाउस होते हुए लखन देवांगन घर से जगत घर होते हुए नेमीचंद बगीचा तक।
- दक्षिण — नेमीचंद बगीचा से मदन देवांगन के खेत होते हुए कृषि उपज मण्डी तक।
- पश्चिम — कृषि उपज मण्डी से नारायण दास जोशी गोदाम होते हुए रेलवे पटरी तक।

**वार्ड क्रमांक 15, राजीव गांधी वार्ड**

- उत्तर — नोदननाला से रेलवे लाईन होते हुए पुराना रेलवे फाटक तक।
- पूर्व — पुराना रेलवे फाटक से पब्लिक उच्चतर माध्यमिक शाला होते हुए रामचंद चिमनानी के खेत तक।
- दक्षिण — रामचंद चिमनानी के खेत से मण्डी तालाब होते हुए मुक्तिधाम, सुरेश देवांगन के घर तक।
- पश्चिम — सुरेश देवांगन के घर से प्राथमिक शाला दैहानीभांठा होते हुए देवांगन समाज भवन से नोदननाला तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक एफ 1-14/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

## NOTIFICATION

No. F 1-14/2019/18 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Municipal Council, Bagbahara, Dist. Mahasamund as per Schedule given below:-

1. Divide the Municipal Council, Bagbahara into 15 wards and define the limit of all such wards as per Schedule.
2. Notify that one member shall be elected for every ward.

## SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	MAHATMA GANDHI WARD
2	JAWAHARLAL NEHRU WARD
3	INDIRA GANDHI WARD
4	DINDAYAL UPADDHYAY WARD
5	GANESH NAGAR WARD
6	SHREE KRISHNA AGARWAL WARD
7	DERHA PRASAD WARD
8	GURUNANAK WARD
9	DR. AMBEDKAR WARD
10	SUBHASH CHANDRA BOSE WARD
11	BABU SAGARCHAND WARD
12	LALBAHADUR SHASHTRI WARD
13	JAKIR HUSSAIN WARD
14	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
15	RAJIV GANDHI WARD



## Description of Ward Limits of Municipal Council, Bagbahara

### WARD NO. 01, MAHATMA GANDHI WARD

- NORTH – From Bhanpur Talab towards Shitla Mata Mandir to Hemlal, Lalit, Punni Bai, Santosh Rangari's House To Municipal Border.
- EAST – From Municipal Border to Kesav Chandrakar's House To Town Hall Towards Purna Prasad Dhruwanshi's House To Dilip Rajput, Ganga Bai Thakur's House Towards RangManch.
- SOUTH – Form Rangmanch towards Irrigation Office To Kiran Thakur's House Towards Tahsil Office To Vindhya Chandrakar's House.
- WEST – From Vindhya Chandrakar's House Towards Suara Dera, Municipal Border To Bhanpur Talab

### WARD NO. 02, JAWAHAR LAL NEHRU WARD

- NORTH – From Babulal Narediya's House To Punit, Anil, Arun and Kishore Daharwal's House Towards Channulal's House.
- EAST – From Channulal's House to Narendra Singh Thakur's House Towards Jamuna Bai, Kaushal Narayan's House (ShantiNagar) To Mansingh's House.
- SOUTH – From Mansingh's House to Kaushal Chandrakar's House (Durga Nagar) Towards Chauhan's House To Sonsing's House.
- WEST – From Sonsing's House to NodanNala Towards Municipal Border to Babulal Narediya's House .

### WARD NO. 03, INDIRA GANDHI WARD

- NORTH – From Daniram Sahu's House To Uma Sahu, Murlidhar Sinha's House Towards Nandkumar Sidar's House.
- EAST – From Nandkumar Sidar's House to Shobharam Patel's House to Avadhram Sahu, Jitendu Shrivastav and Kulesh Dewangan's House Towards Devichand Sahu's House.
- SOUTH – From Devichand Sahu's House to Railway Line Main Road To Railway Station Towards Jamuna Patel's Shop.
- WEST – From Jamuna Patel's Shop to City Cinema To Ramji Tiwari's Godown Towards Sarashwati Shishu Mandir to Daniram Sahu's House

**WARD NO. 04, DINDAYAL UPADDHYAY WARD**

- NORTH – From Moolchand Sen's House To Municipal Talab (Pond) and Water Tank Towards Tirathram Dhankar's House to Narendra Rathore's House.
- EAST – From Narendra Rathore's House to Jawaharlal Chandrakar's House to Ramkumar Bhatt's House To Vishnu Prasad Chandrakar's House Towards Lakhanlal Dewangan's House.
- SOUTH – From Lakhanlal Dewangan's House to Arjun Sika's House To Jageshwar Baghel's House Towards Satya Baghel House.
- WEST – From Satya Baghel House to ChetnaNand Sahu's House To Ramu Gond, Chaitram Yadav's House Towards PanBai Mahanand's House To Moolchand Sen's House.

**WARD NO. 05, GANESHNAGAR WARD**

- NORTH – From Girish Patel's House To Kanghi's House Towards Rewati Bai Yadav's House.
- EAST – From Rewati Bai Yadav's House to Dilip Rice Mill To Agrasen Chauk To Ashok Hotel Towards Navrang Cloth Centre.
- SOUTH – From Ashok Hotel, Navrang Cloth Centre to Chudamadi Soni's House To Railway Station.
- WEST – From Railway Station to BachchhRaj's House To Ram Ashray Yadav's House Towards Mohit Sahu's House to Girish Patel's House .

**WARD NO. 06, SHREE KRISHNA AGARWAL WARD**

- NORTH – From Suresh Ganatra's House To Shekhar Chandrakar's House Towards Kamla Sen's House.
- EAST – From Kamla Sen's House to Mayaram Pandey's House To Lalit Sahu's House Towards Durga Mandap.
- SOUTH – From Durga Mandap to Majid Khan's House To Firturam Chandrakar's House towards Madarsha To Komal Sahu's House.
- WEST – From Komal Sahu's House to Khubchand Sahu's House To Jyoti's House Towards Hemant Yadav's House To Shanti Nagar Road to Suresh Ganatra's House.

**WARD NO. 07, DERHAPRASAD WARD**

- NORTH – From Budhu Sahu's House Towards Dongar Singh Sao's House To Ramlal Dhruw's House.
- EAST – From Ramlal Dhruw's House to Maharana Pratap Bhawan Towards Water Tank To New Bus Stand Towards Rameshwar Sahu's House.
- SOUTH – From Rameshwar Sahu's House To Railway Line Towards Laxmi Medical.
- WEST – From Laxmi Medical Danveer Sharma's House Towards Agrasen Building To Budhu Sahu's House.

**WARD NO. 08, GURUNANAK WARD**

- NORTH – From RamBagash Sharma's House Towards Sukmat's house to Gurudayal singh's House.
- EAST – From Gurudayal Singh's House Towards Pokhraj Shau's house to Municipal Pump House.
- SOUTH – From Municipal Pump House To DharmKanta To Railway Line Towards Radheshyam Agarwal's (Goldi) House.
- WEST – From Radheshyam Agarwal's (Goldi) House To Khambha Talab Towards Shitla Mandir To RamBagash Sharma's House

**WARD NO. 09, DR. AMBEDKAR WARD**

- NORTH – From Lori Singh's House to Water Tank Towards Basant Thakur's House.
- EAST – From Basant Thakur's House To lique Shop Towards Municipal Border.
- SOUTH – From Municipal Border To Devdas House To Pithaura Chauk Towards Petrol Pump.
- WEST – From Petrol Pump To Old Water Tank Towards Lori Singh's House.

**WARD NO. 10, SUBHASH CHANDRA BOSE WARD**

- NORTH — From Municipal Border to Railway Line Towards Municipal Border.
- EAST — From Municipal Border To Railway Line] MuktiDham Dabri Towards Municipal Border.
- SOUTH — From Municipal Border Navagaon] Shitla Mandir Towards Shiv's Farm.
- WEST — From Shiv's Farm to Dongriipara Towards Ghuchapali Road's to Municipal Border.

**WARD NO. 11, BABU SAGARCHAND WARD**

- NORTH — From Dewar Dera to Railway Line Towards P.R.Parmar's House To Ashok's House.
- EAST — From Ashok's House To Safar Ali's House To Hiralal Chakradhari's Farm To Muktidham.
- SOUTH — From Muktidham To Dayaram, Sahu's Shop Towards Dayaram Sahu's Farm.
- WEST — From Dayaram Sahu's Farm to Swarupi Bai Jain's House Towards Chakku Road to Dewar Dera.

**WARD NO. 12, LALBAHADUR SHASHTRI WARD**

- NORTH — From Krishi Upaj Mandi Towards Dwarika Thakur's House to Naikain Talab Towards Municipal Border.
- EAST — From Municipal Border To Raju Chandrakar's Shop.
- SOUTH — From Raju Chandrakar's Shop To Municipal Border Towards Tendulotha Basti To Dongriipara Towards Shivchand's Farm To Municipal Border (MandiPara).
- WEST — From Municipal Border (MandiPara) To Mandi Talab Towards Krishi Upaj Mandi.

**WARD NO. 13, JAKIR HUSSAIN WARD**

- NORTH — From Railway Line To Railway Pump House.
- EAST — From Railway Pump House To Kanhaiya Paan Thela, Jairam Vadhvani's House To Prashant Agarwal Complex.
- SOUTH — From Prashant Agarwal Complex To T.R.Naiydu's House Towards Dilip Panda's House.
- WEST — From Dilip Panda's House To Shivchand Golchha's House To Railway Line.

**WARD NO. 14, DR. RAJENDRA PARASAD WARD**

- NORTH — From Railway Line To Railway PlateForm.
- EAST — From Railway PlateForm Towards Lakhan Dewangan's House to Jagat's House To Nemichand's Bagicha.
- SOUTH — From Nemichand's Bagicha To Madan Dewangan's Farm Towards Krishi Upaj Mandi.
- WEST — From Krishi Upaj Mandi To Narayan Das Joshi's Godown Towards Railway Line.

**WARD NO. 15, RAJIV GANDHI WARD**

- NORTH — From Nodan Nala To Railway Line Towards Railway Gate.
- EAST — From Railway Gate To Public Higher Secendry School Towards Ramchand Chimnani's Farm.
- SOUTH — From Ramchand Chimnani's Farm to Mandi Talab Towards MuktiDham, Suresh Dewangan's House.
- WEST — From Suresh Dewangan's House To Primary School Daihanibhatha Towards Dewangan Samaj Bhawan to Nodan Nala.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary.